

शराब कारखाने पर छापा, आठ लाख की पकड़ी गई नकली शराब

Publish Date: Fri, 12 Jun 2020 06:10 AM (IST)



आबकारी और कछवां पुलिस की संयुक्त टीम ने कछवां थाना क्षेत्र के कटवा इलाके में बनाए जा रहे अवैध शराब के एक कारखाने में छापा मारा। छापेमारी के दौरान टीम ने शराब बनाने की भट्टियों को त

जागरण संवाददाता, कछवां (मीरजापुर) : आबकारी और कछवां पुलिस की संयुक्त टीम ने कछवां थाना क्षेत्र के कटवा इलाके में बनाए जा रहे अवैध शराब के एक कारखाने में छापा मारा। छापेमारी के दौरान टीम ने शराब बनाने की भट्टियों को तोड़ते हुए भारी मात्रा में उपकरण बरामद किया। इस दौरान छह ड्रम में रखे गए करीब साढ़े सात लाख के नकली शराब बरामद की। तीन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।

जिला आबकारी अधिकारी नीरज दूबे ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि कछवां थाना क्षेत्र के कटका इलाके में कुछ लोगों द्वारा अवैध तरीके से शराब बनाकर भदोही, बनारस, मीरजापुर तथा बिहार में टैंकर व छोटी गाड़ियों के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा है। शराब बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित किया गया है। जिसमें कई भट्टियां लगाई गई हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तीन टीमों गठित की। जिसमें निरीक्षक प्रेम चंद्र, निरीक्षक पुष्पेंद्र व हरीशचंद्र समेत अन्य लोग शामिल रहे। बुधवार को वे कछवां निरीक्षक मनोज कुमार सिंह के साथ कारखाने पर छापेमारी करने पहुंचे। कारखाने के अंदर घुसे तो देखा कि दर्जनों भट्टियों पर शराब बनाई जा रही है। साथ ही मौके से छह ड्रम अल्कोहल ओपी समेत बीस लीटर अपमिश्रित शराब और शराब बनाने की भट्टी और उपकरण बरामद हुआ। छापेमारी से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि छापा के दौरान मौके से तीन मुख्य अभियुक्त फरार थे। पुलिस आने के बाद कारखाने पर उससे संबंधित कोई व्यक्ति नहीं आया, लेकिन जानकारी के बाद तीनों अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी निरीक्षक ने साधु बिद पुत्र अमृतलाल निवासी कटका, विश्वप्रकाश पांडेय पुत्र स्वामीनाथ निवासी कुरसतों जंसा वाराणसी व किशन तिवारी पुत्र राम तिवारी निवासी मानापुर मिर्जामुराद वाराणसी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/mirzapur-excise-and-police-raided-the-liquor-factory-fake-liquor-worth-eight-lakh-was-caught-20379754.html>